



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]
No. 343

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1982/श्रावण 26, 1904
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1982/SRAVANA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1982

का० भा० 575 (अ).—भूमिगत रेल (संक्रमण निर्माण) अधिनियम,
1978 की धारा 21 (1) (ब) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं ।

यतः केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक है कि कलकत्ता में भूमिगत (मेट्रो) रेलवे के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित सभी इमारतों का, जो भूमिगत संरक्षण के ऊपर अवस्था उसके किसी भी तरफ 20 मीटर के भीतर स्थित हो, अस्थायी रूप से खाली कराने का निर्देश दिया जाय, अतः एतद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि नीचे दी गयी अनुसूची में निविष्ट परिसरों में रहने वाले व्यक्ति अपने परिवार और आश्रितों सहित जो इन परिसरों में रह रहे हों, साथ ही यदि कोई चल सम्पत्ति अवस्था पशु, जो उनकी अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे में हो तो उसके सहित, उक्त इमारत को खाली कर दे ।

प्रभावित व्यक्तियों को ऐसा अस्थायी वैकल्पिक स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे, निःशुल्क उपलब्ध कराने की अवस्था एक ऐसी धनराशि का, जो सरकार की राय में वैकल्पिक स्थान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है ।

प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को कार्यकारी इंजीनियर, सी एस-4, भूमिगत रेलवे से जो इस प्रयोजन के लिए महाप्रबन्धक, भूमिगत रेलवे के प्राधिकृत

प्रतिनिधि है, सूचना प्राप्त होने के तौम दिन के भीतर यह निष्क्रमण कर देना चाहिए ।

(क) भूमिगत रेलवे कलकत्ता से अस्थायी तौर पर कोई निविष्ट अस्थायी वैकल्पिक स्थान निःशुल्क ग्रहण करने के लिए, अवस्था

(ख) अस्थायी वैकल्पिक स्थान खरीदने के लिए भूमिगत रेलवे कलकत्ता से निविष्ट धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार की राय में पर्याप्त हो, प्राप्त करने के लिए अपने आप को पेश करने के लिए ।

अनुसूची

इमारत परिसर सं०	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	निर्देशन
3. 3, औरब मुखर्जी लेन, कलकत्ता	सर्व धी	प्रत्येक मामले में निष्क्रमण (खाली करने) की वास्तविक धारीका से लगभग 6 महीने की अवधि के लिए सभी चल संपत्ति और/अवस्था सभी पशुओं सहित सभी व्यक्तियों का ऊपर बताए अनुसार निष्क्रमण ।
	1. सिसिरेन्द्र कृष्ण देव	
	2. विनेन्द्र कृष्ण देव	
	3. जयेंद्र कृष्ण देव	
	4. स्वरिन्द्र कृष्ण देव	
	5. बी० मुखर्जी	
	6. सुकेश चौधरी	

[काइल सं० 81/एम० टी० पी०/सी०/एल० ए०/84]

हिम्मत सिंह, सचिव
रेलवे बोर्ड

पवेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार
रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1982

S.O. 575(E).—Notifications under Section 21(1)(b) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978

Whereas the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to direct temporary evacuation of all buildings, described in the schedule below, which are above or within 20 metres on either side of the metro alignment, it is hereby directed that the persons, living in the premises mentioned in the schedule below along with their family and dependents, as residing in these premises, together with any moveable property or animal that may be in their custody, control, or possession shall evacuate the said building.

Arrangement has been made to provide the affected persons with such temporary alternative accommodation, free of cost, as considered suitable by the Central Government or to pay an amount which in its opinion is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

Such evacuation shall be done by every affected person within thirty days from the date of receipt of intimation sent to him by the Executive Engineer CS-4, Metro Railway, who is the authorised representative of the General Manager, Metro Railway for this purpose—

- (a) for taking over temporarily a specific temporary alternative accommodation free of cost from the Metro Railway, Calcutta, or
- (b) for presenting himself to receive from the Metro Railway, Calcutta, a specific amount, which in the opinion of Central Government is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation

SCHEDULE

Building/Premises No.	Name of the affected persons	Directions
1	2	3
	S/Shri	
3 3 Bhalrab Mukherjee Lane, Calcutta.	1. Sisirendra Krishna Deb 2. Digendra Krishna Deb 3. Japendra Krishna Deb 4. Swarindra Krishna Deb 5. B. Mukherjee 6 Suresh Chowdhuri	Evacuation of all persons together with any moveable property and/or any animal as described above for a period of six months approximately from the actual date of evacuation in each individual case.

[Case No 81/MTP/C/LA/84]

HIMMAT SINGH, Secy Railway Board.
Ex-officio Joint Secretary
to the Government of India
Ministry of Railway.